



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 1981/कार्तिक 8, 1903
No. 490] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 1981/KARTIKA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1981

का. आ. 780(अ) .—मैं, एम. बी. एन. राव, स्वर्ण (नियंत्रण) अधि-
नियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 के अधीन नियुक्त प्रशासक, उक्त
अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर या सीमा-शुल्क कलक्टर की पंक्ति के
प्रत्येक स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी को, अधिसूचना सं. का. आ. 653 (अ), ता.
23-10-1980 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं. का. आ. 823(अ) तारीख
16-8-1980 के प्रथम परन्तुक और द्वितीय परन्तुक के भाग (ख) में उल्लिखित

अवधि से अधिक समय के विस्तार की मंजूरी की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन मंरे द्वारा प्रयोक्त्वय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

[सं. 4/81-एफ-131/70/81 गो. 2]

एम. वी. एन. राव, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1981

S.O. 780 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, M. V. N. Rao, the Administrator appointed under section 4 of the said Act, hereby authorise every Gold Control Officer of the rank of Collector of Central Excise or Collector of Customs to exercise the powers exercisable by me under sub-section (6) of section 8 read with section 9 of the said Act in respect of granting extension of time beyond the period mentioned in part (b) of the first proviso and the second proviso in the Notification No. S. O. 623 (E), dated 16-8-1980 as amended by Notification No. S. O. 853 (E), dated 23-10-1980.

[No. 4/81-F. 131/70/81-GC. II]

M. V. N. RAO, Gold Control Administrator.